

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24—जनवरी 30, 2015 (माघ 4, 1936)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24—JANUARY 30, 2015 (MAGHA 4, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 12 सितम्बर 2014

सं.आरएस/6/4/2014/87-कार्मिक----श्री संजय घटक को 2 सितम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा की उद्योग संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री के.सी. त्यागी) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600—39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्री संजय घटक की नियुक्ति उद्योग संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 17 सितम्बर 2014

सं.आरएस/6/4/2014/88-कार्मिक—श्री एस. चन्द्र गुप्तन को 9 सितम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राज्य सभा की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के अध्यक्ष (डॉ. ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600-39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्री एस. चन्द्र गुप्तन की नियुक्ति कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 19 सितम्बर 2014

सं.आरएस./3/7/2014/92-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में संपादक श्री सुशील प्रसाद को 18 सितम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600-39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं.आरएस/6/4/2014/93-कार्मिक—नवोदय विद्यालय समिति में निजी सचिव के पद से कार्यमुक्त किए जाने के उपरांत श्री संतोष कुमार शर्मा को 19 सितम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से मानक विदेश सेवा शर्तों पर और आगामी आदेशों तक राज्य सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री सतीश चन्द्र मिश्रा) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600-39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्री संतोष कुमार शर्मा की नियुक्ति सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 22 सितम्बर 2014

सं.आरएस./6/4/2014/94-कार्मिक—सभापटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के पूर्व अध्यक्ष (श्री डी.पी. त्रिपाठी) के वैयक्तिक स्टाफ में सह पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री सुशान्त मलिक की सेवाएं, 16 सितम्बर, 2014 से 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान करने के उपरांत 30 सितम्बर, 2014 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 26 सितम्बर 2014

सं.आरएस./3/7/2014/95-कार्मिक—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में संपादक श्री राजेश कुमार साह को 26 सितम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600-39,100 रुपए के वेतन बैंड-3 + 6600/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं.आरएस/6/4/2014/97-कार्मिक—आवास समिति के पूर्व अध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) के वैयक्तिक स्टाफ में सह पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री सिद्धार्थ कालिता की सेवाएं, 15 सितम्बर, 2014 के अपराहन से समाप्त की जाती हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं.आरएस/6/4/2014/98-कार्मिक—श्री सिद्धार्थ कालिता को 16 सितम्बर, 2014 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक राज्य सभा की याचिका समिति के अध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600–39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्री सिद्धार्थ कालिता की नियुक्ति याचिका समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं.आरएस/6/4/2014/99-कार्मिक—श्री श्रीजीत बनर्जी को 15 सितम्बर, 2014 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक राज्य सभा की गृह कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री प्रदीप भट्टाचार्य) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600–39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्री श्रीजीत बनर्जी की नियुक्ति गृह कार्य संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 1 अक्टूबर 2014

सं.आरएस/6/4/2014/100-कार्मिक—सुश्री निर्मल कोहली को 19 सितम्बर, 2014 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक राज्य सभा की विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति के अध्यक्ष (डॉ. अश्विनी कुमार) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600–39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. सुश्री निर्मल कोहली की नियुक्ति विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष (डॉ. अश्विनी कुमार) के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं.आरएस/6/4/2014/101-कार्मिक—श्री कोमल सिंह को 22 सितम्बर, 2014 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक राज्य सभा की सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600–39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्री कोमल सिंह की नियुक्ति सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 30 अक्टूबर 2014

सं.आरएस./3/6/1/2014/111-कार्मिक---श्री परवेज़ हुसैन, जिन्हें पहले दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. आरएस.3/6/1/2012/123-कार्मिक द्वारा स्व-स्थाने आधार पर राज्य सभा सचिवालय में मुद्रण अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया गया था, को 27 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाहन से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति पर समायोजित किया जाता है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं.आरएस./6/4/2014/114-कार्मिक---श्री सुदर्शन शर्मा को 20 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक राज्य सभा की मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री जगत प्रकाश नड्डा) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600–39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्री सुदर्शन शर्मा की नियुक्ति मानव संसाधन विकास संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष (श्री जगत प्रकाश नड्डा) के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 5 नवम्बर 2014

सं.आरएस./6/5/2014/117-कार्मिक---श्री नरेन्द्र नाथ भाई को 16 अक्टूबर, 2014 से आगामी आदेशों तक राज्य सभा में मुख्य सचेतक-भाजपा (श्री अविनाश राय खन्ना) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600–39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 5400 रुपए के ग्रेड वेतन में सह-पदावसान आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्री नरेन्द्र नाथ भाई की नियुक्ति राज्य सभा में वर्तमान मुख्य सचेतक-भाजपा (श्री अविनाश राय खन्ना) के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं.आरएस./6/4/2014/118-कार्मिक---आचार समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रो. रामगोपाल यादव के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में सहपदावसान आधार पर नियुक्त श्री समर्थ यादव, की सेवाएं 29 अक्टूबर, 2014 के पूर्वाहन से प्रभावी 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान करने के उपरांत 12 नवम्बर, 2014 के अपराहन से समाप्त की जाती हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 7 जनवरी 2015

सं. ए-12011/3/2014—अनु. I—अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, डॉ. को. राधाकृष्णन, सचिव, अंतरिक्ष विभाग तथा अध्यक्ष, अंतरिक्ष आयोग के पद से 31 दिसम्बर 2014 के अपराहन से कार्यमुक्त हो गए हैं।

बी. अनिल कुमार, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2014

सं. ए. 12025/13/2011—प्रशा. I—राष्ट्रपति ने स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के महानिदेशक (डीजी) डॉ. अजय छिबेर की सेवाओं को उन्हें एक महीने के नोटिस के बदले में एक महीने का वेतन देते हुए तत्काल समाप्त करने का अनुमोदन दे दिया है।

एस. मुखर्जी, निदेशक

दिनांक 1 सितम्बर 2014

सं. एफ. 6 (2206)/2013—प्रशा. I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एम. रवीन्द्र, आई ई एस, निदेशक, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आरईओ), हैदराबाद, योजना आयोग, दिनांक 31.08.2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एस. मुखर्जी, निदेशक

सं. एफ. 6 (2189)/2012—प्रशा. I—आर्थिक कार्य विभाग की फाईल संख्या 13016/3/2014—आई ई एस से जारी आदेश संख्या—टी 14/2014 दिनांक 11 अगस्त 2014 के अनुसरण में श्रीमती अपर्णा सिन्हा, आईईएस, निदेशक, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आरईओ) चेन्नई, योजना आयोग को वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए 01 सितम्बर, 2014 (पूर्वाहन) से आरईओ चेन्नई से कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

एस. मुखर्जी, निदेशक

दिनांक 23 सितम्बर 2014

सं. एफ. 6 (2128)/2010—प्रशा. I—योजना आयोग की दिनांक 12.09.2013 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में श्री अरविन्द मोदी, आईआरएस (आईटी : 81) ने अपने विदेश संबंधी कार्य (फॉरेन एसाइनमेंट) की समाप्ति पर दिनांक 19.09.2014 के पूर्वाहन को योजना आयोग में वापस रिपोर्ट किया है।

उन्हें अपने मूल संवर्ग में रिपोर्ट करने के लिए दिनांक 23.09.2014 (अपराहन) से कार्य मुक्त किया जाता है।

एस. मुखर्जी, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 3 नवम्बर 2014

सं. एफ. 6 (2201)/2012—प्रशा. I—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से योजना आयोग में उपसलाहकार (औद्योगिक योजना) श्री दिब्येन्दु बैदय को उनके मूल कार्यालय अर्थात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विकास आयुक्त के कार्यालय में प्रत्यावर्तित किया जाता है और श्री बैदय दिनांक 07.11.2014 (पूर्वाहन) से उपसलाहकार (औद्योगिक योजना) के पद से कार्यमुक्त हो गए हैं।

एस. मुखर्जी, निदेशक

सं. एफ. 6 (2242)/2014—प्रशा. I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.08.2014 के आदेश संख्या 5/1/2014—सी.एस.आई.(यू) के अनुसरण में श्री सुनील कुमार, सीएसएस (सीएसएल : 6066) ने योजना आयोग में दिनांक 03.11.2014 (पूर्वाहन) से अवर सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

एस. मुखर्जी, निदेशक

सं. ए.—12025/01/2014—प्रशा. I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्या 7/7/2014—ईओ (एस एम—II) दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री यू के शर्मा, को उनके द्वारा धारित संयुक्त सलाहकार (विद्युत) के पद का उन्नयन करके दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 (पूर्वाहन) से और अगले आदेशों तक वेतनमान 37,400—67,000/— रु. + ग्रेड वेतन 10,000/— रु. में पदोन्नति आधार पर योजना आयोग में सलाहकार (गैर विषय) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. मुखर्जी, निदेशक (प्रशा. I)

दिनांक 13 नवम्बर 2014

सं. एफ. 6 (2153)/2011—प्रशा. I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3 नवम्बर, 2014 के पत्रांक 33/7/2014 ईओ (एसएम—I) (6) द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में श्री पवन कुमार अग्रवाल, आईएसएस (पं. : 1985) की नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल की नियुक्ति

समिति के अनुमोदन की संसूचना के अनुसरण में श्री पवन कुमार अग्रवाल, आईएएस (पं० : 1985), सलाहकार, योजना आयोग, अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 12.11.2014 (अपराह्न) से कार्यमुक्त हो गए हैं।

एस. मुखर्जी, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2014

सं. एफ. 6 (2091)/2009-प्रशा. I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/1/2009-ईओ (एमएम-I) दिनांक 10 जुलाई, 2014 के अनुसरण में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पूर्व निजी सचिव, डॉ. अरुणीश चावला, आईएएस (बीएच : 92), को उनकी नयी नियुक्ति अर्थात् संयुक्त सचिव, व्यय विभाग का कार्यभार ग्रहण करने तक उनको यथाअनुमय समापन अवधि के समाप्त होने की तिथि अर्थात् 24.06.2014 से योजना आयोग में 'अनिवार्य प्रतीक्षा' में रखा जाता है।

2. उपर्युक्त विषय पर योजना अयोग की दिनांक 25.06.2014 की पूर्व अधिसूचना उपरोक्तानुसार संशोधित मानी जाये।
3. वे योजना आयोग से कार्यमुक्त होने की तिथि तक योजना आयोग से वेतन और अन्य भत्तों का आहरण करेंगे।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. एफ-6(2194)/2012-प्रशा.-I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस. एम. मीना, आईईएस, निदेशक, योजना आयोग दिनांक 31.07.2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 3 सितम्बर 2014

सं. एफ-6(1478)/91-प्रशा.-I—आर्थिक कार्य विभाग की फाइल सं. 13016/2/2014-आईईएस से जारी आदेश सं. टी-15/2014 दिनांक 11 अगस्त, 2014 के अनुसरण में श्री सुरिन्द्र सिंह, आईईएस के एसएजी स्तर के अधिकारी एवं सलाहकार, योजना आयोग को आर्थिक सलाहकार, भू-संसाधन विभाग, नई दिल्ली के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 3 सितम्बर, 2014 (अपराह्न) से योजना आयोग में उनको कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

जी. राजीव, अवर सचिव

सं. ए-44011/01/2014-प्रशा.-I—आर्थिक कार्य विभाग की फाइल संख्या 13016/2/2014-आई ई एस से जारी आदेश संख्या-पी 3/2014, दिनांक 19 मई 2014, के अनुसरण में तथा भारतीय आर्थिक सेवा के एन एफ एस जी से एस ए जी में पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अमरजीत बंगा, निदेशक, योजना आयोग को कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली में आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 3 सितम्बर 2014 (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 25 सितम्बर 2014

सं. एफ-6(2101)/2009-प्रशा.-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 7/5/2009-ईओ(एसएम-I) दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के अनुसरण में श्री तुहिन कांत पाण्डेय, आई ए एस (ओ आर : 87) संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को दिनांक 16 सितम्बर, 2014 से योजना आयोग के संयुक्त सचिव के अतिरिक्त प्रभार से कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 29 सितम्बर 2014

सं. एफ-6(2219)/2013-प्रशा.-I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर डॉ. प्रमोद कुमार आनन्द, आईएएस (आरजे:83) वरिष्ठ सलाहकार, योजना आयोग, दिनांक 30.09.2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 28 नवम्बर 2014

सं. ए-11013/01/2005-प्रशा.-I—प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के सचिव श्री आलोक शील, आईएएस (के एल:82) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि के समापन के फलस्वरूप उन्हें अपने मूल संवर्ग अर्थात् केरल सरकार में रिपोर्ट करने के लिए दिनांक 01.12.2014 के पूर्वाह्न से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 1 दिसम्बर 2014

सं. एफ-6(2098)/2009-प्रशा.-I—राष्ट्रपति श्री विजय शंकर मदान, आईएएस (यूटी:81) को उनके द्वारा धारित पद का अस्थाई रूप से उन्नयन करते हुए सचिव के रैंक तथा वेतन में दिनांक 16.10.2014 (अपराहन) से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग के महानिदेशक और मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 2014

सं. ए-11013/01/2005-प्रशा.-I—योजना आयोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.11.2014 के क्रम में, डॉ. आलोक शील, आईएएस (के एल:82), सचिव, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 01.12.2014 (पूर्वाहन) को समाप्त होने पर उनको 01.12.2014 से 15.12.2014 तक 15 दिनों का अर्जित अवकाश और 16.12.2014 से 29.01.2015 तक 45 दिनों का अर्द्धवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसके अतिरिक्त उन्हें उपर्युक्त अवकाश के दौरान 22.12.2014 से 05.01.2015 तक अपने पुत्र से मिलने के लिए दुबई जाने की भी अनुमति दी जाती है।

3. डॉ. आलोक शील 01.12.2014 से 29.01.2015 तक के उपर्युक्त अवकाश के समाप्त होने पर अपने मूल संवर्ग को रिपोर्ट करेंगे।

जी. राजीव, अवर सचिव

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जनवरी 2015

सं. ए-19011/132/14-यू.आई.डी.ए.आई.-I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 33/7/2014-ई.ओ./ (एस.एम.-I)/(11) दिनांक 03.11.2014 द्वारा सूचित केबिनेट की नियुक्ति संबंधी समिति की मंजूरी तथा डाक विभाग के कार्यालय आदेश सं. एस.टी.ए./9-1/जे.ए.जी.-एस.ए.जी./2013 दिनांक 24.12.2014 के अनुसरण में, श्री एच. सी. अग्रवाल, आई.पी.ओ.एस. (1988) ने, दिनांक 26.12.2014 (अपराहन) से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली में, वेतन बैंड रु. 37,400—67,000/- (पी.बी.-4) + 10,000/- रु. ग्रेड-पे में, उप-महानिदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती पांच वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) की जाती है।

एस. डी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (स्था.)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2014

सं. ए-32014/1/2009-प्रशा.-I(वि.वि.)—सक्षम प्राधिकारी, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय सहर्ष श्री रमेश चंद वर्मा, सहायक (मुद्रण) को विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय में नियमित आधार पर अधीक्षक (मुद्रण) के पद पर रुपए 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 और रुपए 4,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 की पूर्वाहन से तथा अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2015

सं. ए-12025(i)/1/2007-पार्ट-प्रशा.-I(वि.वि.)—राष्ट्रपति सहर्ष विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में श्री ईश्वर चंदर शर्मा, सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) को विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तदर्थ आधार पर उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के पद पर रुपए 15,600—39,100/- के वेतन बैंड और रुपए 7,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 02 जनवरी, 2015 से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2015

सं. आई-14013/158/2012-आई पी एस-1—माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, गोहाटी पीठ द्वारा ओ. ए. संख्या 269/2012 में पारित दिनांक 08.08.2013 के आदेश के आलोक में दिनांक 29.09.2014 को आयोजित रिव्यू समिति की बैठक की अनुशंसा जिसे संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 24.12.2014 को अनुमोदित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप श्रीमती रमा रक्षित का नाम चयन सूची 2009 के क्रम संख्या- 01-A पर जो श्री प्रदीप पाल (क्रम संख्या-01) और श्री अरिंदम नाथ (क्रम संख्या-02) के बीच में सम्मिलित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, त्रिपुरा राज्य पुलिस सेवा की श्रीमती रमा रक्षित (जन्म तिथि : 21.05.1955) को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत मणिपुर त्रिपुरा संवर्ग का त्रिपुरा खण्ड प्रदान करते हैं।

2. यह नियुक्ति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 जनवरी 2015

सं. 14034/35/2014-राभा(प्रशि.)—श्री दिनेश चंद्र, उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 जुलाई 2014 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

हरिन्द्र कुमार, निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

सं. 14015/5/2013-अ.भा.से.-(I)-क—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 तथा दिनांक 30.12.2014 के समसंख्यक आदेश के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची, 2013 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गैर-राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग की पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5 के अंतर्गत दिनांक 20.12.2013 को तैयार और विनियम 7(1) के अंतर्गत दिनांक 25.03.2014 को अनुमोदित की गई छत्तीसगढ़ के राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की निम्नलिखित नामों वाली प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं :—

2013 की प्रवर सूची (01.01.2012 से 31.12.2012 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्रीमती शारदा वर्मा	01.01.1965

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

सं. 14015/5/2013-अ.भा.से.-(I)-ख—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 तथा दिनांक 30.12.2014 के समसंख्यक आदेश के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर सूची वर्ष 2013 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए छत्तीसगढ़ गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश तक परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ संवर्ग आबंटित करते हैं :—

2013 की प्रवर सूची (01.01.2012 से 31.12.2012 के मध्य हुई रिक्तियों के लिए)

क्रम सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्रीमती शारदा वर्मा

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 1 जनवरी 2015

सं. 14015/7/2014-अ.भा.से.-(I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा

के पदोन्नति कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए 03.11.2014 को विनियम 5(5) के अंतर्गत तैयार की गई तथा 23.12.2014 को विनियम 7(2) के अंतर्गत अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों वाली हिमाचल प्रदेश राज्य के सिविल सेवा के अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करते हैं :—

वर्ष 2013 की चयन सूची (01.01.2013 से 31.12.2013 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	जन्म-तिथि
1.	राजेश शर्मा	21.02.1966
2.	राखिल कहलोन (अ.जा.)	09.01.1966
3.	संजीव भटनागर	27.12.1959
4.	संजीव पठानिया	14.05.1959
5.	हिमांशु शेखर चौधरी	02.02.1959
6.	डॉ. नरेश कुमार लाथ	05.08.1960

2. समिति की सिफारिशें निम्नलिखित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन हैं : विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) श्री नारायण सिंह चौधरी द्वारा राम स्वरूप गुप्ता तथा अन्य के विरुद्ध दायर सं. 66-68/2008 तथा उसके साथ सम्बद्ध आदि एलपी(सी) सं. (संख्याएँ) 2008 की 10523, 2008 की 2260 तथा 2008 की 2641-2643 सहित तथा श्री राजेश शर्मा द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य के विरुद्ध दायर सीडब्ल्यू पी सं. 8167/2013 श्री महेन्द्र पाल सूद, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य के विरुद्ध दायर सी डब्ल्यू पी सं. 8213/2013 तथा श्री विनोद कुमार तथा राज कृष्ण द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य के विरुद्ध दायर की गई 2014 की 151।

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

सं. 14015/7/2014-अ.भा.से.-(I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति चयन सूची वर्ष 2013 की रिक्तियों हेतु राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक, परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) के नियम 5(1) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश संवर्ग आबंटित करते हैं :—

वर्ष 2013 की चयन सूची (01.01.2013 से 31.12.2013 के बीच हुई रिक्तियों के लिए)

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)
1.	राजेश शर्मा
2.	राखिल कहलोन (अ.जा.)
3.	संजीव भटनागर
4.	संजीव पठानिया
5.	हिमांशु शेखर चौधरी
6.	डॉ. नरेश कुमार लाथ

2. समिति की सिफारिशें निम्नलिखित याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन हैं : विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) श्री नारायण सिंह चौधरी द्वारा राम स्वरूप गुप्ता तथा अन्य के विरुद्ध दायर सं. 66-68/2008 तथा उसके साथ सम्बद्ध आदि एलपी(सी) सं. (संख्याएँ) 2008 की 10523, 2008 की 2260 तथा 2008 की 2641-2643 सहित तथा श्री राजेश शर्मा द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य के विरुद्ध दायर सीडब्ल्यू पी सं. 8167/2013 श्री महेन्द्र पाल सूद, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य के विरुद्ध दायर सी डब्ल्यू पी सं. 8213/2013 तथा श्री विनोद कुमार तथा राज कृष्ण द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य तथा अन्य के विरुद्ध दायर की गई 2014 की 151।

नितिन गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2015

सं. 01/2015 (फा.सं. 6/2518/2010/एचआरडी-I 41)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस महानिदेशालय में कार्यरत श्रीमती सविता सक्सेना, विदेश व्यापार विकास अधिकारी (अनुभाग अधिकारी, सीएसएस) 31.12.2014 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गयी हैं।

निर्मल कुमार, उप विदेश व्यापार महानिदेशक (मा.सं.वि.)

सं. 02/2015 (फा.सं. 6/2473/2008/एचआरडी-I 28)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस महानिदेशालय में कार्यरत श्री केवल कृष्ण, विदेश व्यापार विकास अधिकारी (अनुभाग अधिकारी, सीएसएस) 31.12.2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

निर्मल कुमार, उप विदेश व्यापार महानिदेशक (मा.सं.वि.)

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

नई दिल्ली-110107, दिनांक 23 दिसम्बर 2014

सं. ए-12023/4/2013-स्था.-I—राष्ट्रपति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में पुस्तकालय एवं सूचना सहायक के पद पर नियमित रूप से कार्यरत श्री जी. डी. पाणीग्राही की सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 29.10.2014 से 17.11.2014 तक की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति का आदेश पूर्णतः तदर्थ आधार पर किया गया है तथा यह अधिकारी को अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता अथवा उच्च ग्रेड में पदोन्नति इत्यादि के लिए किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

सं. ए-19011/795/2012-स्था.-I—औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उप-सचिव श्रीमती संजीवनी तम्हाने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 दिसम्बर, 2014 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

राजेश कुमार, अवर सचिव

सं. ए-19012/1375/2011-स्था.-I—औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अनुभाग अधिकारी श्रीमती नीरू जोहर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 दिसम्बर, 2014 के अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

राजेश कुमार, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

सं. ए-19019/05/2005-स्थापना-I—राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संशोधित लचीली मानार्थ योजना (एफ सी एस) के अंतर्गत यथा-स्थाने आधार पर श्री राजेश कुमार को 28 नवम्बर, 2014 पूर्वाहन से तथा अगले आदेशों तक वेतन बैंड (पीबी-3) में रुपए 15,600—39,100/- + रु. 7,600/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक 'डी' के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2015

सं. ए-12025/51/2011-सीएसएस-III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर जी बी पंत अस्पताल, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के शिक्षण विशेषज्ञ उपसंवर्ग में तैनात डॉ. मंजू सब्बरवाल को के. स्वा. यो. के शिक्षण उपसंवर्ग में जीव रसायन विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर 18 अगस्त 2011 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

मुरारी लाल शर्मा, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 2015

सं. ए-38016/8/2014-स्था.-III—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत डॉ. हिमांशु भूषण, डिप्टी कमिश्नर दिनांक 31.12.2014 (अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ध्रुव चक्रवर्ती, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली-110114, दिनांक 27 जनवरी 2014

सं. ए-19012/5/2013-स्था.-I—राष्ट्रपति ने एस ए जी स्तर के अधिकारी श्री पी. के. मुखोपाध्याय (आईएसएस) को दिनांक 23.01.2014 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेश होने तक के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में सलाहकार (सांख्यिकी) नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 28 जनवरी 2014

सं. ए-12023/04/2013-स्थापना-I—राष्ट्रपति ने श्री अशोक कुमार घोष को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 26 दिसम्बर, 2013 के आदेश संख्या 6/1/2012-सीएस I(एस) के अनुसार सीएसएस अधिकारियों की क्रमवार स्थानांतरण नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस मंत्रालय में स्थानांतरण के फलस्वरूप 1 जनवरी, 2014 पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में अनुभाग अधिकारी (रैंक संख्या 167/2009) नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 13 फरवरी 2014

सं. ए-12022/07/2013-स्था.-I—राष्ट्रपति ने श्री एस. राकेश कुमार, आईएफएस (जम्मू व कश्मीर : 2003) को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप-सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 12.02.2014 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक के लिए होगी।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 21 फरवरी 2014

सं. ए-12023/01/2007-स्था.-I—माननीय राष्ट्रपति ने श्रीमती सरिता कुमारी, आईएफएस (एचपी : 2005) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत 17.02.2014 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक 4 वर्ष की अवधि के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में उप सलाहकार (वानिकी) नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 4 मार्च 2014

सं. ए-22012/01/2013-स्था.-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 फरवरी, 2014 के आदेश सं. 5/3/2014-सीएस-I (यू.) के द्वारा तैनाती के फलस्वरूप, राष्ट्रपति ने श्रीमती आर. धारिणी (सीएसएल सं. 6297) को दिनांक 25 फरवरी, 2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में अवर सचिव नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 5 मार्च 2014

सं. ए-12023/03/2012-स्था.-I—राष्ट्रपति ने संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में पूर्व वरिष्ठ संकलनकर्ता श्री मुकेश कुमार गौतम को 4,600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9,300—34,800/- रुपए के वेतन बैंड में दिनांक 03 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक ग्रामीण विकास मंत्रालय में आर्थिक अधिकारी नियुक्त किया है।

2. श्री मुकेश कुमार गौतम अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-12023/03/2012-स्था.-I—राष्ट्रपति ने संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर जनगणना कार्य निदेशालय, पंजाब, चंडीगढ़ के कार्यालय में पूर्व संकलनकर्ता श्री अमित कुमार को 4,600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9,300—34,800/- रुपए के वेतन बैंड में दिनांक 04 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक ग्रामीण विकास मंत्रालय में आर्थिक अधिकारी नियुक्त किया है।

2. श्री अमित कुमार अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 1 अप्रैल 2014

सं. ए-19011/1/2014-स्था.-I—राष्ट्रपति ने सुश्री सुधा पी. राव आईईएस (1981) को ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में 67,000—79,000/— रु. (3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) के वेतनमान में 27 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 29 अप्रैल 2014

सं. ए-11016/1/2013-स्थापना-I—माननीय राष्ट्रपति ने श्री टी. विजय कुमार, भा.प्र.से. (एपी : 1983), संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग में उन्नयित पद पर अपर सचिव नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 17.04.2014 (पूर्वाह्न) से छः माह तक की अवधि या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 6 मई 2014

सं. ए-22012/03/2010-स्था.-I—वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के आदेश संख्या 13016/4/2014-आईईएस के अनुसरण में राष्ट्रपति ने श्री जगदीश कुमार (आईईएस) को 21 अप्रैल, 2014 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेश होने तक के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-12022/10/2013-स्थापना-I—राष्ट्रपति ने श्री बी. सी. बेहेरा को 30.04.2014 (पूर्वाह्न) से ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर आरंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक के लिए, जो भी पहले हो, निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 9 मई 2014

सं. ए-19013/10/2012-स्था.-I—राष्ट्रपति ने भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) स्तर के अधिकारी श्री सिधिल ससी को 01.01.2014 से अगले आदेश होने तक के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में नॉन फंक्शनल सलेक्शन ग्रेड में निदेशक नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 23 मई 2014

सं. ए-12023/04/2013-स्थापना-I—राष्ट्रपति ने श्री अमित कुमार सिंह को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 के आदेश संख्या 6/1/2012-सीएस I(एस) के द्वारा रक्षा मंत्रालय से इस मंत्रालय में पुनः आवंटन के फलस्वरूप दिनांक 24 दिसम्बर, 2013, पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में अनुभाग अधिकारी (रैंक संख्या 45/2010) नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 29 मई 2014

सं. ए-22012/04/2010-स्था.-I—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 19.05.2014 के कार्यालय आदेश संख्या-12015/03/2014-आईएसएस के अनुसरण में राष्ट्रपति ने भारतीय सांख्यिकी सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों (परिवीक्षाधीन) को 21 मई, 2014 के पूर्वाह्न से ग्रामीण विकास मंत्रालय में सहायक निदेशक (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्त किया है :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद
1.	श्री रूपम कुमार सरकार	सहायक निदेशक (प्रशिक्षु)
2.	श्री शेखर श्रीवास्तव	सहायक निदेशक (प्रशिक्षु)

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 30 मई 2014

सं. ए-12022/10/2013-स्था.-I—राष्ट्रपति ने श्रीमती रेणुका कुमार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में 13.05.2014 (पूर्वाह्न) से, प्रारंभ में 1 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो पूर्णतः तदर्थ आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 27 जून 2014

सं. ए-22012/01/2013-स्था.-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून, 2014 के आदेश संख्या 5/1/2014-सीएस-आई(यू) के द्वारा तैनाती के फलस्वरूप राष्ट्रपति ने श्री आर. के. सिंह (सीएसएल संख्या 7075) को 17 जून, 2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में अवर सचिव नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2014

सं. ए-22012/01/2013-स्था.-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.06.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/13/2012-सीएसआई(यू) के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति के लिए वर्ष 2011 की चयन सूची में निम्नलिखित अधिकारियों के नामों को शामिल किए जाने के उपरांत राष्ट्रपति इन्हें 15,600—39,100/- रु. + ग्रेड-पे 6,600/- रु. के पे-बैंड में नियमित आधार पर सीएसएस का अवर सचिव नियुक्त करते हैं :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएल सं.	धारित पद और तैनाती का वर्तमान स्थान	अवर सचिव ग्रेड की चयन सूची
1.	श्री सर्वजीत कुमार	6911	अवर सचिव, भूमि संसाधन विभाग	2011
2.	श्रीमती स्नेह लता	7248	अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	2011

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता का कोई भी मामला नहीं है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 8 अगस्त 2014

सं. ए-12023/01/2013-स्था.-I—राष्ट्रपति ने श्रीमती भावना सिंह, आईएसएस को 04.08.2014 (पूर्वाह्न) से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति अगले आदेश होने तक के लिए होगी।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-19013/4/2012-स्था.-I—राष्ट्रपति ने श्रीमती मंजू राजपाल, भा.प्र.से. (राज : 2000) को उनके लिए किए गए एक विशेष उपाय के रूप में 24.07.2014 (पूर्वाह्न) से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनकी कार्यवधि की शेष बची अवधि जो कि अब 24.06.2017 है या अगले आदेश होने तक के लिए होगी।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-19013/4/2012-स्था.-I—राष्ट्रपति ने श्री ध्रुव कुमार सिंह, आईसीएसएस (2000) को उनके लिए किए गए एक विशेष उपाय के रूप में 24.07.2014 (पूर्वाह्न) से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनकी कार्यवधि की शेष बची अवधि, जो कि अब 02.09.2016 तक है या अगले आदेश होने तक के लिए होगी।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 4 सितम्बर 2014

सं. ए-22012/01/2013-स्था.-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 5/6/2013-सीएसआई(यू) दिनांक 04.07.2014 के माध्यम से सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को 2012 की चयन सूची में शामिल किए जाने के उपरांत राष्ट्रपति ने इन

अधिकारियों को 04.07.2014 से नियमित आधार पर 15,600—39,100/— रु. + 6,600/— रु. ग्रेड पे के पे-बैंड में सीएसएस का अवर सचिव नियुक्त किया है :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएस सं.	धारित पद और मौजूदा तैनाती का स्थान	आबंटित यूएस ग्रेड की चयन सूची
1.	श्री गुलजारी लाल	7376	अवर सचिव (तदर्थ) ग्रामीण विकास मंत्रालय	2012
2.	श्री राजीव बहल	7382	अवर सचिव (तदर्थ) ग्रामीण विकास मंत्रालय	2012
3.	श्री शशि भूषण तिवारी	7396	अवर सचिव (तदर्थ) ग्रामीण विकास मंत्रालय	2012
4.	श्री सी. पी. सिंह	7625	अवर सचिव (तदर्थ) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	2012
5.	सुश्री सोनाली दत्ता	7944	अवर सचिव (तदर्थ) ग्रामीण विकास मंत्रालय	2012
6.	श्री बिधि चंद	7979	अवर सचिव (तदर्थ) भूमि संसाधन विभाग	2012
7.	श्री सुधीर कुमार सिन्हा	7795	अवर सचिव (तदर्थ) ग्रामीण विकास मंत्रालय	2012
8.	श्री सुब्रत सान्याल	7809	अवर सचिव (तदर्थ) ग्रामीण विकास मंत्रालय	2012

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता को कोई मामला नहीं बनता है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2014

सं. ए-12022/7/2014-स्था.-I—राष्ट्रपति महोदय ने श्री अभिजीत सिन्हा, भा.प्र.से. (एन एल:2000) को दिनांक 07.07.2014 से 5 वर्ष की अवधि अथवा मंत्री महोदय के पद पर बने रहने अथवा मंत्री महोदय के साथ निजी सचिव के रूप में उनका कार्य-काल समाप्त होने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) का निजी सचिव (निदेशक स्तर) नियुक्त किया है।

स्नेह लता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 अक्टूबर 2014

सं. ए-12022/5/2014-स्था.-I—राष्ट्रपति ने श्री डी. पी. एस. राजेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय में दिनांक 02.06.2014 से 31.03.2017 (जब उनकी अधिवर्षिता की आयु हो जाएगी) या मंत्री जी के साथ सह-समाप्य आधार पर या उनके विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्य करना बंद करने या अगले आदेश होने तक, जो भी सबसे पहले हो, वेतन बैंड-4, रुपए 37,400—67,000/— + 8,700/— रुपए के ग्रेड वेतन में निदेशक स्तर पर ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) का विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 22 अक्टूबर 2014

सं. ए-12022/06/2012-स्था.-I—राष्ट्रपति ने डॉ. कुशल कुमार पाठक, आईपीओएस (2000) को केन्द्र में 01.10.2014 से 27.11.2016 तक अर्थात् सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत कुल पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया है। उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल की गणना 18.11.2011 से की गई है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. ए-12022/08/2014-स्था.-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 सितम्बर, 2014 के आदेश संख्या 5/11/2014/सीएस-I (यू) के आधार पर राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के जिन अनुभाग अधिकारियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त किया है, उनके नाम व उनके नाम के सामने नियुक्ति की प्रभावी तारीखें इस प्रकार हैं :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएस संख्या	नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीमती मंजू ज्योति	8531	15.09.2014 (पूर्वाह्न)
2.	श्री राजेश कुमार कनौजिया	8514	25.09.2014 (पूर्वाह्न)

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 19 नवम्बर 2014

सं. ए-19011/03/2012-स्था.-I—राष्ट्रपति ने श्री एस. एम. विजयानंद, आईएएस (केएल:1981) के पद का अस्थायी तौर पर उन्नयन करते हुए उन्हें 16.10.2014 के अपराहन से ग्रामीण विकास विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 2 दिसम्बर 2014

सं. ए-12023/4/2014-स्था.-I—राष्ट्रपति ने श्री प्रमोद कुमार को पीबी-3, वेतनमान 15,600—39,100/- रुपये + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में दिनांक 10.11.2014 (पूर्वाहन) से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) का अपर निजी सचिव नियुक्त किया है। वे मंत्री महोदय के पद पर बने रहने अथवा उनके अपर निजी सचिव के रूप में कार्य करने अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, कार्य करते रहेंगे।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 23 दिसम्बर 2014

सं. ए-22012/01/2014-स्था.-I—वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 05.12.2014 के आदेश सं. टी-22/2014 (फाइल सं. 13016/4/2014-आईईएस) के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने भारतीय आर्थिक सेवा के 2013 बैच की सुश्री अनुश्री राहा (जूनियर टाइम स्केल ऑफिसर) को 08 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाहन से अगले आदेश होने तक ग्रामीण विकास मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

एस. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली-110114, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

सं. ए-12022/12/2014-स्था.-I—राष्ट्रपति ने सुश्री प्रेरणा पुरी, भा. प्र. से. (एजीएमयूटी:2006) को 25.11.2014 (अपराहन) से ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) का निजी सचिव (अवर सचिव के स्तर पर) नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि या मंत्री के साथ सह-सामाय्य आधार पर या जब तक वह मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना चाहें या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए होगी।

स्नेह लता, अवर सचिव

दिनांक 10 मार्च 2014

सं. ए-12022/01/2014-स्था.-I—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत श्री प्रिय रंजन, आईएफएस (आरजे : 1998) को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में 11.11.2017 तक (गैर सीएसएस और सीएसएस दोनों सेवाओं में कुल सात वर्ष का कार्यकाल) की अवधि के लिए 28 फरवरी, 2014 के अपराहन से और अगले आदेशों तक निदेशक के पद पर नियुक्त किया है।

स्नेह लता, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2014

सं. ए-38012/03/2014-स्था.-I—एफआर-56(के) के उप खण्ड-I के प्रावधान के तहत स्वैच्छिक आधार पर सेवा निवृत्ति के विकल्प के चयन के फलस्वरूप अवर सचिव श्री विजय आइन्द ग्रामीण विकास मंत्रालय से दिनांक 01.08.2014 (पूर्वाहन) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

स्नेह लता, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 2015

सं. ए-19040/2/2014-स्थापना-I—राष्ट्रपति महोदय सुश्री रश्मि शुक्ला शर्मा, (भा.प्र.से.84) को दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक पंचायती राज मंत्रालय में बतौर अपर सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. शिवा कुमार, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2014

सं. ए-32013/1/2014-स्था.—केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) हेतु तदर्थ आधार पर श्री कमल बखरू की पदोन्नति और दिनांक 20.11.2014 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/11/2014-सीएस-I (यू) द्वारा संस्कृति मंत्रालय में उनकी तैनाती के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री कमल बखरू को संस्कृति मंत्रालय में सीएसएस के अवर सचिव के पद पर दिनांक 01.12.2014 की पूर्वाह्न से दिनांक 31.05.2015 की अवधि तक या नियमित आधार पर इस पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों जो भी पहले हो, तक नियुक्त करते हैं।

एन. पी. जोशी, अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2014

सं. ई(ओ)III-2014/आरएन/20—भारतीय रेल यातायात सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी डॉ. टी. आर. के. राव (जन्म तिथि : 04.05.1957 एवं डीआईटीएस : 13.07.1987) का एनएमडीसी लिमिटेड में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्हें 17.11.2014 (पूर्वाह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 2 जनवरी 2015

सं. ईआरबी-1/2014/2/13—राष्ट्रपति जी, श्री मो. अख्तर, एचएजी/आईआरपीएस, सलाहकार (स्टाफ), रेलवे बोर्ड की ग्रेड रु. 75,500—80,000/- में पदोन्नति होने पर उन्हें 19.12.2014 के पूर्वाह्न से अपर सदस्य (स्टाफ), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 6 जनवरी 2015

सं. ईआरबी-1/2014/2/77—राष्ट्रपति जी, श्री प्रदीप कुमार, भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा, महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, को 01.01.2015 के पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप से /तदर्थ आधार पर सदस्य स्टाफ, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 7 जनवरी 2015

सं. ईआरबी-1/2014/2/69—राष्ट्रपति जी, श्री एस. विजयाराघवन, एचएजी/आईआरएसएस, सलाहकार, वित्त (वी), रेलवे बोर्ड की ग्रेड रु. 75,500—80,000/- में पदोन्नति होने पर उन्हें 22.12.2014 के पूर्वाह्न से अपर सदस्य (वित्त), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2013/2/64—राष्ट्रपति जी, श्री ए. के. भित्तल, भारतीय रेलवे स्टोर सेवा, सदस्य (स्टाफ), रेलवे बोर्ड को 01.01.2015 के पूर्वाह्न से अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन मुख्य सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-1/2014/2/78—राष्ट्रपति जी, श्री नवीन टंडन, आईआरएसईई, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, को 31.12.2014 के अपराह्न से सदस्य बिजली, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 8 जनवरी 2015

सं. ईआरबी-I/2014/3/2—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के निम्नलिखित निजी सहायकों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से नियमित आधार पर रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/- के पे बैंड-2 में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के निजी सचिव के ग्रेड में पदोन्नत किया गया है :—

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/सुश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	अनिल भट्ट	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
2.	पुष्पलता शर्मा	31.12.2014 (अपराह्न)

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2014/3/2—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएसएस) और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के निम्नलिखित सहायकों एवं निजी सहायकों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से नियमित आधार पर रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/- के पे बैंड-2 में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आरबीएसएसएस) के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत किया गया है :—

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री/सुश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	नरेन्द्र सिंह रावत	31.12.2014 (अपराह्न)
2.	वेद प्रकाश	06.01.2015 (पूर्वाह्न)
3.	शेख मोहम्मद मस्तान	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
4.	एन. नजीरुद्दीन	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
5.	रेखा अग्रवाल	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
6.	संजय गुप्ता	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
7.	संदीप कुमार	31.12.2014 (अपराह्न)
8.	अनिल बर्नाड बार्ला	05.01.2015 (पूर्वाह्न)
9.	प्रवीन कुमार सिन्हा	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
10.	दीपिका भारद्वाज	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
11.	पंकज विशाल	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
12.	गोविन्द झा	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
13.	प्रीति	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
14.	ब्रिजेश कुमार	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
15.	रमेश चन्द्र पांडे	01.01.2015 (पूर्वाह्न)
16.	कृष्ण कुमार शर्मा	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
17.	दिनेश मोहन सिंह	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
18.	राम नाथ सिंह	31.12.2014 (पूर्वाह्न)
19.	अमित कुमार	31.12.2014 (पूर्वाह्न)

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2015/2/1—श्री जगत सिंह नगरकोटी, उप निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड को दिनांक 07.01.2015 के पूर्वाह्न से पे बैंड 15,600—39,100/- रुपये + ग्रेड पे 7,600/- रुपये में संयुक्त निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 18 दिसम्बर 2014

सं. ए-32014/1/2010/न.ग्रा.नि.सं./प्रशा.-III/यू.डी.-II—सक्षम प्राधिकारी श्री जी. शंकर नारायणन, सहायक, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) एवं मु.प्र.अ. का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली की नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन में 9,300—34,800/- रु. + ग्रेड वेतन 4,800/- रु. के वेतन बैंड-2 में प्रशासनिक अधिकारी (जी.सी.एस. ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर प्रतिनियुक्ति को दिनांक 18.11.2014 से अगले एक वर्ष की अवधि (चौथे वर्ष) अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाते हैं।

नरेश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 9 दिसम्बर 2014

सं. ए-31013/1/2014-टी.सी.पी.ओ./प्रशासन-III(पी.पी. व सी.)/यू.डी.-II—राष्ट्रपति नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन में निम्नलिखित सहायक नगर एवं ग्राम नियोजकों को इस पद पर उनके नाम के सामने उल्लेखित तिथि से मूलरूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	नाम	पद	दिनांक
1.	श्री नितिन कुमार आजाद	सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	01.06.2013
2.	सुश्री डी. ब्लेसी	सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	16.07.2013
3.	श्रीमती जासमीन बिमरा मल्लिक	सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	20.07.2013
4.	श्री पीयूष सिंह	सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक	17.09.2013

नरेश कुमार, अवर सचिव

सं. ए-31013/1/2012-टी.सी.पी.ओ./प्रशासन-III(पी.पी. व सी.)/यू.डी.-II—राष्ट्रपति नगर एवं ग्राम नियोजक संगठन में निम्नलिखित सह नगर एवं ग्राम नियोजकों को इस पद पर उनके नाम के सामने उल्लेखित तिथि से मूलरूप से नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	नाम	पद	दिनांक
1.	श्री पवन कुमार	सह नगर एवं ग्राम नियोजक	26.12.2012
2.	श्रीमती अंजलि पंचोली	सह नगर एवं ग्राम नियोजक	18.09.2013

नरेश कुमार, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 12th September 2014

No. RS/6/4/2014/87-Perl.—Shri Sanjay Ghatak has been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Chairman, Committee on Industry, Rajya Sabha (Shri K. C. Tyagi) in the Pay Scale of Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 2nd September, 2014 on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Sanjay Ghatak is at the discretion of the present Chairman, Committee on Industry and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 17th September 2014

No. RS/6/4/2014/88-Perl.—Shri S. Chandra Guptan has been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Chairman, Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, Rajya Sabha (Dr. E. M. Sudarsana Natchiappan) in the Pay Scale of Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 9th September, 2014 on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri S. Chandra Guptan is at the discretion of the present Chairman, Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 19th September 2014

No. RS/3/7/2014/92-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Sushil Prasad, Editor in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Assistant Director (E&T) on regular basis in that Secretariat in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under rules with effect from the forenoon of 18th September, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Joint Director

No. RS/6/4/2014/93-Perl.—On being relieved from the post of Private Secretary in Navodaya Vidyalaya Samiti, Shri Santosh Kumar Sharma is appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Chairman, Committee on Government Assurances (Shri Satish Chandra Misra) in the Pay Scale of Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 19th September, 2014 on standard foreign service terms and until further orders.

2. The appointment of Shri Santosh Kumar Sharma is at the discretion of the present Chairman, Committee on Government Assurances and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 22nd September 2014

No. RS/6/4/2014/94-Perl.—The services of Shri Sushanta Mallick as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of former Chairman, Committee on Papers Laid on the Table (Shri D. P. Tripathi), shall stand terminated w.e.f. the afternoon of 30th September, 2014 after granting him a winding up period of 15 days w.e.f. forenoon of 16th September, 2014.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 26th September 2014

No. RS/3/7/2014/95-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Sah, Editor in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Assistant Director (E&T) on regular basis in that Secretariat in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under rules with effect from the forenoon of 26th September, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Joint Director

No. RS/6/4/2014/97-Perl.—The services of Shri Siddhartha Kalita as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of former Chairman, House Committee (Shri Bhubaneswar Kalita) stand terminated w.e.f. the afternoon of 15th September, 2014.

S. RANGARAJAN, Joint Director

No. RS/6/4/2014/98-Perl.—Shri Siddhartha Kalita has been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Chairman, Committee on Petitions (Shri Bhubaneswar Kalita) in the Pay Scale of Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 16th September, 2014 on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Siddhartha Kalita is at the discretion of the present Chairman, Committee on Petitions and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Joint Director

No. RS/6/4/2014/99-Perl.—Shri Srijit Banerjee has been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Chairman, Committee on Home Affairs (Shri Pradip Bhattacharya) in the Pay Scale of Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 15th September, 2014 on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Srijit Banerjee is at the discretion of the present Chairman, Committee on Home Affairs and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 1st October 2014

No. RS/6/4/2014/100-Perl.—Ms. Nirmal Kohli has been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Chairman, Committee on Science & Technology, Environment & Forests (Dr. Ashwani Kumar) in the Pay Scale of Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100 + Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 19th September, 2014 on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Ms. Nirmal Kohli is at the discretion of the present Chairman, Committee on Science & Technology, Environment & Forests (Dr. Ashwani Kumar) and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Joint Director

No. RS/6/4/2014/101-Perl.—Shri Komal Singh has been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Chairman, Committee on Papers Laid on the Table (Shri Mukhtar Abbas Naqvi) in the Pay Scale of Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 22nd September, 2014 on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Komal Singh is at the discretion of the present Chairman, Committee on Paper Laid on the Table (Shri Mukhtar Abbas Naqvi) and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 30th October 2014

No. RS/3/6/1/2014/111-Perl.—Shri Parwez Husain, who was earlier appointed to the grade of Printing Officer in the Rajya Sabha Secretariat on in-situ basis vide Notification RS/3/6/1/2012/123-Perl. Dated 31st December, 2012 stands adjusted against a regular vacancy in the said grade w.e.f. the forenoon of 27th October, 2014.

S. RANGARAJAN, Joint Director

No. RS/6/4/2014/114-Perl.—Shri Sudershan Sharma has been appointed as Senior Private Secretary in the personal staff of Chairman, Committee on Human Resource Development (Shri Jagat Prakash Nadda) in the Pay Scale of Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. the forenoon of 20th October, 2014 on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Sudershan Sharma is at the discretion of the present Chairman, Committee on Human Resource Development (Shri Jagat Prakash Nadda) and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Joint Director

The 5th November 2014

No. RS/6/5/2014/117-Perl.—Shri Narendra Nath Bhai has been appointed as Private Secretary in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the personal staff of Chief Whip-B.J.P., Rajya Sabha (Shri Avinash Rai Khanna) w.e.f. 16th October, 2014 on co-terminus basis and until further orders.

2. The appointment of Shri Narendra Nath Bhai is at the discretion of the present Chief Whip-B.J.P., Rajya Sabha (Shri Avinash Rai Khanna) and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Joint Director

No. RS/6/4/2014/118-Perl.—The service of Shri Samarath Yadav as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of former Chairman, Committee on Ethics (Prof. Ram Gopal Yadav) shall stand terminated w.e.f. the afternoon of 12th November, 2014 after granting him a winding up period of 15 days w.e.f. forenoon of 29th October, 2014.

S. RANGARAJAN, Joint Director

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 7th January 2015

No. A-12011/3/2014-Sec.I—Consequent on his retirement on superannuation, Dr. K. Radhakrishnan has relinquished the charge of the post of Secretary, Department of Space and Chairman, Space Commission with effect from the afternoon of 31st December, 2014.

B. ANIL KUMAR, Deputy Secretary

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 29th August 2014

No. A-12025/13/2011-Adm.I—The President has approved the termination of the services of Dr. Ajay Chhibber as Director General (DG), Independent Evaluation Office forthwith by giving him one month salary in lieu of a month's notice.

S. MUKHERJEE, Director

The 1st September 2014

No. F.6(2206)/2013-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Shri M. Ravinder, IES, Director, REO Hyderabad, Planning Commission retires from Government service w.e.f. 31.08.2014 (A.N.)

S. MUKHERJEE, Director

No. F.6(2189)/2012-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs order No. T-14/2014 issued from their file No. 13016/3/2014-IES dated 11th August, 2014 Smt. Aparna Sinha, IES, Director, REO Chennai, Planning Commission is relieved of her duties in REO Chennai w.e.f. 1st September, 2014 (FN) to join as Director in Department of Commerce, New Delhi.

S. MUKHERJEE, Director

The 23rd September 2014

No. 6(2128)/2010-Adm.I—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 12.09.2013, Shri Arbind Modi, IRS (IT : 81) has reported back to Planning Commission on the expiry of his foreign assignment on the forenoon of 19.09.2014.

He stands relieved for reporting to his parent cadre w.e.f. 23.09.2014 (afternoon).

S. MUKHERJEE, Director (Administration)

The 3rd November 2014

No. F.6(2201)/2012-Adm.I—With the approval of the Competent Authority, Shri Dibyendu Baidya, Deputy Adviser (Industrial Planning) in the Planning Commission is repatriated to his parent office i.e. Office of the Development Commissioner in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Sh. Baidya stands relieved of his duties as Deputy Adviser (Industrial Planning) w.e.f. 07.11.2014 (FN).

S. MUKHERJEE, Director

No. F.6(2242)/2014-Adm.I—In pursuance of Dept. of Personnel & Training Order No. 5/1/2014-CS.I(U) dated 06.08.2014, Shri Sunil Kumar, CSS (CSL : 6066) has assumed charge of the post of Under Secretary in the Planning Commission, w.e.f. 03.11.2014 (FN).

S. MUKHERJEE, Director

No. A-12025/01/2014-Adm.I— In pursuance of Department of Personnel & Training letter No. 7/7/2014-EO(SM.II) dated 24th October, 2014, the President is pleased to appoint Shri U. K. Sharma as Adviser (Non-Discipline) in the Planning Commission on promotion basis in the Pay Scale of Rs. 37,400-67,000/- with Grade Pay of Rs. 10,000/-, by upgrading the post of Joint Adviser (Power) held by him w.e.f. 29th October, 2014 (Forenoon) and until further orders.

S. MUKHERJEE, Director (Adm.I)

The 13th November 2014

No. F.6(2153)/2011-Adm.I—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Communication No. 33/7/2014/EO(SM-I) (6) dated 3rd November, 2014 regarding appointment of Shri Pawan Kumar Agarwal, IAS (WB : 1985) as Joint Secretary in Department of Skill Development & Entrepreneurship, Shri Pawan Kumar Agarwal, IAS (WB : 1985), Adviser, stands relieved from the Planning Commission w.e.f. 12.11.2014 (AN) to join his new assignment.

S. MUKHERJEE, Director

New Delhi, the 30th July 2014

No. F.6(2091)/2009-Adm.I—In pursuance of DoPT O.M. No. 7/1/2009-EO (MM-I) dated 10th July, 2014, Dr. Arunish Chawla, IAS (BH : 92) fromer PS to Dy. Chairman, Planning Commission is placed on 'compulsory wait' in the Planning Commission w.e.f. the date of completion of winding up period as admissible to him. i.e. 24.06.2014 till he assumes charge of his new assignment i.e. as Joint Secretary in the Department of Expenditure.

2. The earlier Planning Commission Notification of even number dated 25.06.2014 on the subject stands amended to the above extent.

3. He will draw his salary and other allowances from Planning Commission till the date of his relief from the Planning Commission.

G. RAJEEV, Under Secretary

No. F.6(2194)/2012-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Shri S. M. Meena, IES, Director, Planning Commission retires from Government service w.e.f. 31.07.2014 (A.N.).

G. RAJEEV, Under Secretary

The 3rd September 2014

No. F.6(1478)/91-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs order No. T-15/2014 issued from their file No. 13016/2/2014-IES dated 11th August, 2014, Shri Surinder Singh, a SAG level officer of IES and Adviser, Planning Commission is relieved of his duties in Planning Commission w.e.f. 3rd September, 2014 (AN) to join as Economic Adviser, Department of Land Resources, New Delhi.

G. RAJEEV, Under Secretary

No. A-44011/01/2014-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs order No. P-3/2014 issued from their file No. 13016/2/2014-IES dated 19th May, 2014 and consequent upon his promotion from NFSG to SAG of IES, Shri Amar Jit Banga, Director, Planning Commission is relieved of his duties in Planning Commission w.e.f. 3rd September, 2014 (AN) to join as Economic Adviser, Department of Agricultural and Cooperation, New Delhi.

G. RAJEEV, Under Secretary

The 25th September 2014

No. F.6(2101)/2009-Adm.I—In pursuance of Department of Personnel & Training communication No. 7/5/2009-EO(SM.I) dated 16th September, 2014, Shri Tuhin Kanta Pandey, IAS (OR : 87), Joint Secretary, Cabinet Secretariat is relieved of the additional charge of the post of Joint Secretary, Planning Commission with effect from 16th September, 2014.

G. RAJEEV, Under Secretary

The 29th September 2014

No. F.6(2219)/2013-Adm.I—On attaining the age of superannuation, Dr. Pramod Kumar Anand, IAS, (RJ : 83), Sr. Adviser, Planning Commission retires from Government service w.e.f. 30.09.2014 (A.N.).

G. RAJEEV, Under Secretary

The 28th November 2014

No. A-11013/01/2005-Adm.I—Consequent upon completion of his central deputation tenure, Shri Alok Sheel, IAS (KL : 82), Secretary, EAC to PM stands relieved from Planning Commission with effect from the forenoon of 01.12.2014 for reporting back to his parent cadre, Govt. of Kerala.

G. RAJEEV, Under Secretary

The 1st December 2014

No. F.6(2098)/2009-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri Vijay Shankar Madan, IAS (UT : 81) as Director General and Mission Director, Unique Identity Authority of India, Planning Commission, in the rank and pay of Secretary with effect from 16.10.2014 (AN) by temporarily upgrading the post held by him.

G. RAJEEV, Under Secretary

The 5th December 2014

No. A-11013/01/2005-Adm.I—In continuation of Planning Commission notification of even No. dated 28.11.2014, on expiry of central deputation tenure of Dr. Alok Sheel, IAS (KL: 82), Secretary, EAC to PM on 01.12.2014 (F/N) he has been sanctioned Earned Leave of 15 days from 01.12.2014 to 15.12.2014 and 45 days of Half Pay Leave from 16.12.2014 to 29.01.2015.

2. Further, he is also permitted to visit Dubai from 22.12.2014 to 05.01.2015 during the above leave period to visit his son.

3. On expiry of the above leave period from 01.12.2014 to 29.01.2015, Dr. Alok Sheel may report back to his parent cadre.

G. RAJEEV, Under Secretary

UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

New Delhi-110001, the 1st Jan 2015

No. A-19011/132/14-UIDAI.—In pursuance of approval of Appointments Committee of the Cabinet conveyed by the Department of Personnel & Training vide O.M No. 33/7/2014-EO(SM-I)(11) dated 03.11.2014 and Department of Posts, Order No. STA/9-1/JAG-SAG/2013 dated 24.12.2014, Shri H.C. Agrawal, IPoS (1988) has assumed the charge of Deputy Director General in Unique Identification Authority of India, New Delhi w.e.f 26.12.2014 (A/N) in the Pay Band of Rs. 37400-67000/- (PB-4) plus Grade Pay Rs. 10,000/- for a period of five years from the date of taking over the charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

S.D SHARMA, Asstt. Director General (Estt.)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 19th December 2014

No.A.32014/1/2009-Admn.I(L.D.)—The Competent Authority in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice is pleased to appoint Shri Ramesh Chand Verma, Assistant (Printing) to the post of Superintendent (Printing) on regular basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/- in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 19th December, 2014 and until further orders.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

The 2nd January 2015

No.A.12025(i)/1/2007-Pt.-Admn.I(L.D.)—The President is pleased to appoint Shri Ishwar Chander Sharma, Assistant Legislative Counsel (Grade-IV of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 15600—39100/- plus Grade Pay of Rs. 7600/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from 2nd January, 2015 or until further orders; whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will neither bestow on him any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

B.M. SHARMA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 12th January 2015

No. I-14013/158/2012-IPS.I—Consequent upon inclusion of the name of Smt. Rama Rakshit at Sl. No. 01A below the name of Shri Pradip Paul (Sl. No. 01) and above the name of Shri Arindam Nath (Sl. No. 02) in the Select List of 2009 and the approval of the Union Public Service Commission on 24.12.2014 to the recommendations of the Review Selection Committee which met on 29.09.2014 to review the Select List of 2009 to consider the name of Smt. Rama Rakshit for appointment to the Indian Police Service in pursuance of order dated 08.08.2013 of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Guwahati Bench in O.A. No. 269/2012 and in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with 2nd proviso to sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint Smt. Rama Rakshit (Date of Birth : 21.05.1955), a member of Tripura Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate her to the Tripura Segment of Joint Manipur-Tripura Cadre under sub- rule (1) of rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 7th January 2015

No. 14034/35/2014-OL(Training)—Shri Dinesh Chander, Deputy Director (Hindi Typewriting & Hindi Stenography), Central Hindi Training Institute, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31st July, 2014.

HARINDER KUMAR, Director (Training)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 30th December 2014

No. 14015/05/2013-AIS (I)-A----In exercise of powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and order of even number dated 30.12.2014, the President is pleased to notify the Select List of Non-State Civil Service officer of Chhattisgarh containing the following name prepared on 20.12.2013 under Regulation 5 and approved on 25.03.2014, under Regulation 7(1) towards filling up promotion quota vacancies in Chhattisgarh cadre of IAS under Non-State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2013:-

Select List of 2013 (Against vacancies arisen between 1.1.2012 to 31.12.2012)

S.No.	Name of the Officer (Smt.)	Date of Birth
1	Sharda Verma	01.01.1965

2. The appointment of the officer mentioned above will take effect from the date of issue of this notification.

NITIN GUPTA, Under Secy.

No. 14015/05/2013-AIS (I)-B----In exercise of the powers conferred by Rule 8(2) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954 and order of even number dated 30.12.2014, the President is pleased to appoint the following member of the Non-State Civil Service of Chhattisgarh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 3 of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2013, on probation until further orders and to allocate her to the Chhattisgarh Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List of 2013(Against vacancies arisen between 1.1.2012 to 31.12.2012)

S.No.	Name of the Officer (Smt.)
1	Sharda Verma

2. The appointment of the officer mentioned above will take effect from the date of issue of this notification.

NITIN GUPTA, Under Secy.

The 1st January 2015

No. 14015/7/2014-AIS (I)-A----In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Himachal Pradesh containing the following names prepared on 3.11.2014 under Regulation 5(5) and approved on 23.12.2014, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in Himachal Pradesh cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government:-

Select List of 2013 (Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12.2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
1.	Rajesh Sharma	21.02.1966
2.	Rakhil Kahlon (SC)	09.01.1966

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)	Date of Birth
3.	Sanjeev Bhatnagar	27.12.1959
4.	Sanjeev Pathania	14.05.1959
5.	Himanshu Shekhar Chaudhary	02.02.1959
6.	Dr. Naresh Kumar Lath	05.08.1960

2. The recommendations of the Committee will be subject to the final outcome in SLP No. (s) 66-68/2008 filed by Sh. Narain Singh Choudhary versus Ram Swarup Gupta and Ors. Etc. Tagged with LP (C) No. (s) 10523 of 2008, 2260 of 2008 and 2641-2643 of 2008 and CWP No. 8167/2013 filed by Sh. Rajesh Sharma versus State of H.P. & Ors., CWP No. 8213/2013 filed by Sh. Mahender Pal Sood versus State of H.P. and Ors. And CWP No. 151 of 2014 filed by Shri Vinod Kumar and Raj Krishan Pruthi Vs State of H.P. and others.

NITIN GUPTA, Under Secy.

No. 14015/7/2014-AIS (I)-B—In exercise of the powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Himachal Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2013, on probation until further orders and to allocate them to the Himachal Pradesh Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Select List of 2013 (Against vacancies arisen between 1.1.2013 to 31.12. 2013)

S.No.	Name of the Officer (S/Shri)
1	Rajesh Sharma
2.	Rakhil Kahlon (SC)
3.	Sanjeev Bhatnagar
4.	Sanjeev Pathania
5.	Himanshu Shekhar Chaudhary
6.	Dr. Naresh Kumar Lath

2. The recommendations of the Committee will be subject to the final outcome in SLP No. (s) 66-68/2008 filed by Sh. Narain Singh Choudhary versus Ram Swarup Gupta and Ors. Etc. Tagged with LP (C) No. (s) 10523 of 2008, 2260 of 2008 and 2641-2643 of 2008 and CWP No. 8167/2013 filed by Sh. Rajesh Sharma versus State of H.P. & Ors., CWP No. 8213/2013 filed by Sh. Mahender Pal Sood versus State of H.P. and Ors. And CWP No. 151 of 2014 filed by Shri Vinod Kumar and Raj Krishan Pruthi Vs State of H.P. and others.

NITIN GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

New Delhi, the 8th January 2015

No. 01/2015 F.No. 6/2518/2010/HRD-I-41—On attaining the age of superannuation Smt. Savita Saxena, Foreign Trade Development Officer (Section Officer, CSS) in this Directorate retired from Government Service with effect from 31.12.2014 (AN).

NIRMAL KUMAR, Dy. Director General of Foreign Trade

No. 02/2015 F.No. 6/2473/2008/HRD-I-28—On attaining the age of superannuation Shri Kewal Krishan, Foreign Trade Development Officer (Section Officer, CSS) in this Directorate retired from Government Service with effect from 31.12.2014 (AN).

NIRMAL KUMAR, Dy. Director General of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi-110 107, the 23rd December 2014

No.A-12023/4/2013-E.I—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri G.D. Panigrahi, a regular Library and Information Assistant in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, as Assistant Library and Information Officer for the period from 29-10-2014 to 17-11-2014.

2. The above appointment has been ordered purely on ad-hoc basis and will not confer any right on the officer to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc.

L. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 31st December 2014

No. A-19011/795/2012-E.I—On attaining the age of superannuation Smt. Sanjivani Tamhane, Deputy Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st December, 2014.

RAJESH KUMAR, Under Secy.

No. A-19012/1375/2011 -E.I—On attaining the age of superannuation, Smt. Neeru Johar, Section Officer, Central Secretariat Service in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, stands retired from Government Service, with effect from the afternoon of 31st December, 2014.

RAJESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 26th December 2014

No.A-19019/05/2005-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar as Scientist 'D' in the Department of Scientific & Industrial Research, Ministry of Science & Technology in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 plus Grade Pay of Rs. 7600/- on in-situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from the forenoon of the 28th November, 2014 and until further orders.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110 108, the 7th January 2015

No. A.12025/51/2011-CHS.III—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Manju Subberwal to the post of Assistant Professor in the specialty of Biochemistry in the Teaching Sub-Cadre of CHS, posted at the G.B. Pant Hospital, New Delhi in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 18th August, 2011 and until further orders.

MURARI LAL SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 1st January 2015

No. A. 38016/8/2014-Estt.III—On attaining the age of superannuation, Dr. Himanshu Bhushan, Deputy Commissioner posted in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare has retired from Government Service w.e.f. 31.12.2014 (AN).

DHRUV CHAKRAVARTY, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

New Delhi-100114, the 27th January 2014

No. A-19012/5/2013-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri P.K. Mukhopadhyay, (ISS), an SAG level officer as Adviser (Stats) in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 23.01.2014 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 28th January 2014

No. A-12023/04/2013-Estt.I—Consequent upon his transfer from Ministry of Human Resource Development to this Ministry under Rotational Transfer Policy of CSS officers vide Department of Personnel & Training' Order No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 26th December, 2013, the President is pleased to appoint, Shri Ashok Kuamr Ghosh as Section Officer (Rank No. 167/2009) in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) with effect from the forenoon of 1st January, 2014 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 13th February 2014

No. A-12022/07/2013-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri S. Rakesh Kumar, IFS (JK:2003) as Deputy Secretary in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development under Central Staffing Scheme for a period of four years with effect from the forenoon of 12.02.2014 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 21st February 2014

No. A-12023/01/2007-Estt.I—The President is pleased to appoint Smt. Sarita Kumari, IFS (HP:2005) as Deputy Adviser (Forestry) in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development under Central Staffing Scheme of Ministry of Environment & Forests for a period of four years with effect from the forenoon of 17.02.2014 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 4th March 2014

No. A-22012/01/2013-Estt.I—Consequent upon posting vide Department of Personnel & Training' Order No. 5/3/2014-CS.I(U) dated 24th February, 2014, the President is pleased to appoint, Smt. R. Dharini (CSL No. 6297) as Under Secretary on the rolls of Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) with effect from the forenoon of 25th February, 2014 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 5th March 2014

No. A-12023/03/2012-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Mukesh Kumar Gautam, former Senior Compiler in the Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow as Economic Officer in the Ministry of Rural Development in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- with effect from the forenoon of 3rd March, 2014 and until further orders, on the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission.

2. Shri Mukesh Kumar Gautam will be on probation for two years with effect from the date of his appointment.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. A-12023/03/2012-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Amit Kumar, former Compiler in the Office of the Directorate of Census Operations, Punjab, Chandigarh as Economic Officer in the Ministry of Rural Development in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- with effect from the forenoon of 4th March, 2014 and until further orders, on the basis of the recommendations of the Union Public Service Commission.

2. Shri Amit Kumar will be on probation for two years with effect from the date of his appointment.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 1st April 2014

No. A-19011/1/2014-Estt.I—The President is pleased to appoint Ms. Sudha P. Rao, IES (1981) as Chief Economic Adviser in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development in the scale of pay of Rs. 67,000/- (annual increment @3%) Rs. 79,000/- with effect from the forenoon of 27th March, 2014 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 29th April 2014

No. A-11016/1/2013-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri T. Vijay Kumar, IAS (AP:1983), Joint Secretary, Department of Rural Development as Additional Secretary in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development against the upgraded post, for a period of six months w.e.f. 17.04.2014 (FN) and until further orders, whichever is earlier.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 2nd May 2014

No. A-22012/03/2010-Estt.I—In pursuance of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs's Order No. 13016/4/2014-IES dated 21st April, 2014, the President is pleased to appoint Shri Jagdish Kumar (IES) to the post of Assistant Commissioner in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 21st April, 2014 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 6th May 2014

No. A-12022/10/2013-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri B. C. Behera as Director in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development w.e.f. 30.04.2014 (FN) purely on ad-hoc basis, initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 9th May 2014

No. A-19013/10/2012-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Sidhil Sasi, a Junior Administrative Grade (JAG) level officer of Indian Statistical Service (ISS) in the Non-Functional Selection Grade as Director in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development w.e.f. 01.01.2014 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 23rd May 2014

No. A-12023/04/2013-Estt.I—Consequent upon his re-allocation from Ministry of Defence to this Ministry vide Department of Personnel & Training' Order No. 6/1/2012-CS.I(S) dated 23rd December, 2013, the President is pleased to appoint, Shri Amit Kumar Singha as Section Officer (Rank No. 45/2010) in the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) with effect from the forenoon of 24th December, 2013 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 29th May 2014

No. A-22012/04/2010-Estt.I—In pursuance of Ministry of Statistics and Programme Implementations's Office Order No. 12015/03/2014-ISS dated 19.05.2014, the President is pleased to appoint the following officers belonging to the

Indian Statistical Service (Probationers) to the post of Assistant Director (Trainee) in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 21st May, 2014 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Post
1.	Shri Rupam Kumar Sarkar	Assistant Director (Trainee)
2.	Shri Shekhar Srivastava	Assistant Director (Trainee)

S. K. GUPTA, Under Secy.

—
The 30th May 2014

No. A-12022/10/2013-Estt.I—The President is pleased to appoint Smt. Renuka Kumar as Director in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development w.e.f. 13.05.2014 (FN) purely on ad-hoc basis, initially for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

S. K. GUPTA, Under Secy.

—
The 27th June 2014

No. A-22012/01/2013-Estt.I—Consequent upon posting vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/1/2014-CS.I(U) dated 17th June, 2014, the President is pleased to appoint, Shri R. K. Singh (CSL No. 7075) as Under Secretary on the rolls of Ministry of Rural Development (Department of Rural Development) with effect from the forenoon of 17th June, 2014 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

—
The 15th July 2014

No. A-22012/01/2013-Estt.I—Consequent upon their inclusion in the Select List Year 2011 for appointment to Grade-I (Under Secretary) of CSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/13/2012-CS.I(U) dated 9th June, 2014, the President is pleased to appoint the following Officers as Under Secretary of CSS on regular basis in Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- :—

Sl. No.	Name of the officer	CSL No.	Post held and present place of posting	Select List of US Grade
1.	Shri Sarvjit Kumar	6911	Under Secretary D/o Land Resources	2011
2.	Smt. Sneh Lata	7248	Under Secretary M/o Rural Development	2011

2. It is certified that above Officers are clear from vigilance angle.

S. K. GUPTA, Under Secy.

—
The 8th August 2014

No. A-12023/01/2013-Estt.I—The President is pleased to appoint Smt. Bhawana Singh, ISS Director in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 04.08.2014 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. A-19013/4/2012-Estt.I—The President is pleased to appoint Smt. Manju Rajpal, IAS (RJ:2000) as Director as a measure personal to her in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 24th July, 2014 for a balance period of her tenure which would now be upto 24.06.2017 or until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. A-19013/4/2012-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Dhruva Kumar Singh, ICAS (2000) as Director as a measure personal to him in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 24th July, 2014 for a balance period of his tenure which would now be upto 02.09.2016 or until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 4th September 2014

No. A-22012/01/2013-Estt.I—Consequent upon their inclusion in the Select List Year 2012 for appointment to Grade-I (Under Secretary) of CSS vide Department of Personnel & Training O.M. No. 5/6/2013-CS.I(U) dated 4th July, 2014, the President is pleased to appoint the following Officers as Under Secretary of CSS on regular basis w.e.f. 04.07.2014 in Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- :—

Sl. No.	Name of the officer	CSL No.	Post held and present place of posting	Select List of US Grade allotted
1.	Shri Guljari Lal	7376	Under Secretary (ad-hoc) M/o Rural Development	2012
2.	Shri Rajeev Bahal	7382	Under Secretary (ad-hoc) M/o Rural Development	2012
3.	Shri Sashi Bhushan Tiwari	7396	Under Secretary (ad-hoc) M/o Rural Development	2012
4.	Shri C. P. Singh	7625	Under Secretary (ad-hoc) M/o DWS	2012
5.	Ms. Sonali Dutta	7944	Under Secretary (ad-hoc) M/o Rural Development	2012
6.	Shri Bidhi Chand	7979	Under Secretary (ad-hoc) M/o LR	2012
7.	Shri Sudhir Kumar Sinha	7795	Under Secretary (ad-hoc) M/o Rural Development	2012
8.	Shri Subrata Sanyal	7809	Under Secretary (ad-hoc) M/o Rural Development	2012

2. It is certified that above Officers are clear from vigilance angle.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 30th September 2014

No. A-12022/7/2014-Estt.I— The President is pleased to appoint Shri Abhijit Sinha, IAS (NL:2000) as Private Secretary (Director level) to the Minister of State for Rural Development, Panchayati Raj and Drinking Water & Sanitation (Shri Upendra Kushwaha) with effect from 07.07.2014 for a period of 5 years or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 9th October 2014

No. A-12022/5/2014-Estt.I— The President is pleased to appoint Shri D.P.S. Rajesh as Officer on Special Duty to the Minister of State for Rural Development, Panchayati Raj and Drinking Water & Sanitation (Shri Upendra Kushwaha) in the Ministry of Rural Development with effect from 02.06.2014 and upto 31.03.2017 (i.e. the date on which he attains the age of superannuation) in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,700/- at the level of Director or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever occurs the earliest.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 22nd October 2014

No. A-12022/06/2012-Estt.I—The President is pleased to appoint Dr. Kushal Kumar Pathak, IPoS (2000) as Director in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development under Central Staffing Scheme w.e.f. 01.10.2014 up to 27.11.2016 i.e. a total tenure of 5 years at the Centre. He counts his central deputation tenure w.e.f. 28.11.2011.

S. K. GUPTA, Under Secy.

No. A-12022/08/2014-Estt.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/11/2014-CS-I(U) dated 15th September, 2014, the President is pleased to appoint the following Section Officers of the CSS as Under Secretary of the CSS on ah-hoc basis in the Ministry of Rural Development with effect from the dates as indicated against each and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	CSL No.	Date of appointment
1.	Smt. Manju Jyoti	8531	15.09.2014 (FN)
2.	Shri Rajesh Kumar Kanaujia	8514	25.09.2014 (FN)

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 19th November 2014

No. A-19011/03/2012-Estt.I—The President is pleased to appoint S. M. Vijayanand, IAS (KL:1981) as Special Secretary, Department of Rural Development by temporarily up-grading the post held by the officer w.e.f. the afternoon of 16.10.2014.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 2nd December 2014

No. A-12023/4/2014-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Pramod Kumar as Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Rural Development (Shri Sudersan Bhagat) in the PB:3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay 6,600/- w.e.f. 10.11.2014 (FN) on co-terminus basis or till he ceases to function as Additional Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 23rd December 2014

No. A-22012/01/2014-Estt.I—In pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order No. T-22/2014 (File No. 13016/4/2014-IES) dated 05.12.2014, the President is pleased to appoint Ms. Anusree Raha (Junior Time Scale Officer) belonging to the 2013 batch of Indian Economic Service to the post of Assistant Director in the Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 8th December, 2014 and until further orders.

S. K. GUPTA, Under Secy.

The 26th December 2014

No. A-12022/12/2014-Estt.I—The President is pleased to appoint Ms. Purna Puri, IAS (AGMUT:2006) as Private Secretary (Under Secretary level) to the Minister for Rural Development, Panchayati Raj and Drinking Water & Sanitation (Shri Birender Singh) with effect from 25.11.2014 (AN) for a period of 5 years or on co-terminus basis with the Minister or till she ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

S. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 10th March 2014

No. A-12022/01/2014-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Priya Ranjan, IFS (RJ:1998) as Director in the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development under Central Staffing Scheme for a period upto 11.11.2017 (combined tenure of seven years in both stints i.e. Non-CSS and CSS put together) with effect from the afternoon of 28.02.2014 and until further orders.

SNEH LATA, Under Secy.

The 31st July 2014

No. A-38012/03/2014-Estt.I—Consequent upon his option to retire on voluntary basis under the provision of Sub-Clause-I of FR-56(k), Shri Vijay Aind, Under Secretary in the Department of Rural Development will stand retired from Government Service w.e.f. 01.08.2014 (FN).

SNEH LATA, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi-110001, the 2nd January 2015

No. A-19040/2/2014—Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Rashmi Shukla Sharma, IAS (MP:84) as Additional Secretary in the Ministry of Panchayati Raj w.e.f. the forenoon of 31st December, 2014 and until further orders.

R. SHIVA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 9th December 2014

No. A-32013/1/2014-Estt.—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) on ad-hoc basis and his posting in the Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/11/2014-CS.I(U) dated 20.11.2014, the President is pleased to appoint Shri Kamal Bakhru as Under Secretary of CSS in the Ministry of Culture w.e.f. the forenoon of 1.12.2014 for a period upto 31.5.2015 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier.

N. P. Joshi, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th December 2014

No. E(O)III-2014/RN/20—Consequent upon his permanent absorption in NMDC Ltd., Dr. T.R.K. Rao, Senior Administrative Grade officer of the Indian Railway Traffic Service (DOB: 04/05/57, DITS: 13/07/87) has resigned from Railway service with effect from 17/11/2014 (FN).

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

The 2nd January 2015

No. ERB-I/2014/2/13—The President is pleased to appoint Shri Mohd. Akhtar, HAG/IRPS, Adviser (Staff), Railway Board as Additional Member (Staff), Railway Board on promotion to grade ₹ 75,500—80,000/- with effect from forenoon of 19.12.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

The 6th January 2015

No. ERB-I/2014/2/77—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar, IRSE, General Manager, North Central Railway as Member (Staff), Railway Board and ex-officio Secretary to Government of India on adhoc/officiating basis w.e.f. forenoon of 01.01.2015.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

The 7th January 2015

No. ERB-I/2014/2/69—The President is pleased to appoint Shri S. Vijayaraghavan, HAG/IRAS, Adviser, Finance (V), Railway Board as Additional Member (Finance), Railway Board on promotion to grade ₹ 75,500—80,000/- with effect from forenoon of 22.12.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

No. ERB-I/2013/2/64—The President is pleased to appoint Shri A.K. Mital, IRSS, Member (Staff), Railway Board, as Chairman, Railway Board and ex-officio Principal Secretary to the Government of India w.e.f. forenoon of 01.01.2015.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

No. ERB-I/2014/2/78—The President is pleased to appoint Shri Navin Tandon, IRSEE, General Manager, South East Central Railway as Member (Electrical), Railway Board and ex-officio Secretary to Government of India w.e.f. afternoon of 31.12.2014.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

The 8th January 2015

No. ERB-I/2014/3/2—The following Personal Assistants of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS), have been promoted to the Private Secretary Grade of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) in the Pay Band-2 of ₹ 9,300-34,800/- plus Grade pay of ₹ 4,800/- on regular basis with effect from the date indicated against each :—

S. No.	Name (S/Shri/Ms.)	Date of Joining
1.	ANIL BHATT	31.12.2014(F.N.)
2.	PUSHPLATA SHARMA	31.12.2014(A.N.)

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

No. ERB-I/2014/3/2—The following Assistants of Railway Board Secretariat Service (RBSS) and Personal Assistants of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS), have been promoted to the Section Officers Grade of Railway Board Secretariat Service (RBSS) in the Pay Band-2 of ₹ 9,300—34,800/- plus Grade pay of ₹ 4,800/- on regular basis with effect from the date indicated against each :—

S. No.	Name (S/Shri/Ms.)	Date of Joining
1.	NARENDER SINGH RAWAT	31.12.2014(A.N.)
2.	VED PRAKASH	06.01.2015(F.N.)
3.	SHAIK MOHAMMED MASTAN	31.12.2014(F.N.)
4.	N. NAZEERUDEEN	31.12.2014(F.N.)

S. No.	Name (S/Shri/Ms.)	Date of Joining
5.	REKHA AGRAWAL	31.12.2014(F.N.)
6.	SANJAY GUPTA	31.12.2014(F.N.)
7.	SANDEEP KUMAR	31.12.2014(A.N.)
8.	ANIL BERNARD BARLA	05.01.2015(F.N.)
9.	PRAVIN KUMAR SINHA	31.12.2014(F.N.)
10.	DEEPIKA BHARDWAJ	31.12.2014(F.N.)
11.	PANKAJ VISHAL	31.12.2014(F.N.)
12.	GOVIND JHA	31.12.2014(F.N.)
13.	PREETI	31.12.2014(F.N.)
14.	BRIJESH KUMAR	31.12.2014(F.N.)
15.	RAMESH CHANDRA PANDEY	01.01.2015(F.N.)
16.	KRISHNA KUMAR SHARMA	31.12.2014(F.N.)
17.	DINESH MOHAN SINGH	31.12.2014(F.N.)
18.	RAM NATH SINGH	31.12.2014(F.N.)
19.	AMIT KUMAR	31.12.2014(F.N.)

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

No. ERB-I/2015/2/1—Shri Jagat Singh Nagarkoti, Deputy Director (Official Language), Railway Board, is appointed as Joint Director (Official Language), Railway Board, in Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with Rs. 7,600/- Grade Pay with effect from the forenoon of 07.01.2015.

P. C. GAJBHIYE, Secretary
Railway Board

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 1st December 2014

No. A-32014/2/2010-TCPO/Admin III/UD-II—The Competent Authority is pleased to extend the deputation of Shri G Sankara Narayanan, Assistant in the Office of Joint Secretary (Trg) and CAO, Ministry of Defence, 'E' Block, DHQ PO, New Delhi – 110011 to the post of Administrative Officer (GCS Group 'B' Gazetted) in the Town & Country Planning Organisation in Pay Band – 2 of Rs. 9,300–34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- for a further period of one year (fourth year) w.e.f 18.11.2014, or until further orders, whichever is earlier.

NARESH KUMAR, Under Secy.

The 9th December 2014

No. A.31013/1/2014-TCPO/Admn.III(PP&C)/UD.II—The President is pleased to appoint the following Assistant Town and Country Planners in the Town and Country Planning Organisation substantively to the post with effect from the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date
1.	Shri Nitin Kumar Azad	Assistant Town & Country Planner	01.06.2013
2.	Ms. D. Blessy	Assistant Town & Country Planner	16.07.2013

Sl. No.	Name	Post	Date
3.	Ms. Jasmine Bimra Mallick	Assistant Town & Country Planner	20.07.2013
4.	Shri Piyoosh Singh	Assistant Town & Country Planner	17.09.2013

NARESH KUMAR, Under Secy.

No. A.31013/1/2012-TCPO/Admn.III(PP&C)/UD.II—The President is pleased to appoint the following Associate Town and Country Planners in the Town and Country Planning Organisation substantively to the post with effect from the date mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date
1.	Shri Pawan Kumar	Associate Town & Country Planner	26.12.2012
2.	Ms. Anjali Pancholy	Associate Town & Country Planner	18.09.2013

NARESH KUMAR, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015
www.dop.nic.in